



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर० के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री उमेशचन्द्र के निकट पर्यवेक्षण में थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम द्वारा अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे गिरफ्तारी/सघन चेकिंग अभियान के क्रम में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना कुलपहाड़ में प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश कुमार के नेतृत्व में गठित हुयी पुलिस टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 122/2022 धारा 323/354क/363/376/392 भा०द०वि० व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त नसीम उर्फ कल्लू मंसूरी पुत्र जहूर उम्र करीब 36 वर्ष निवासी बेहननपुरा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा को बेलाताल रोड मुढ़ारी तिराहा से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त -

नसीम उर्फ कल्लू मंसूरी पुत्र जहूर उम्र करीब 36 वर्ष नि० बेहननपुरा कस्बा बेलाताल थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. प्रभारी निरीक्षक श्री उमेश कुमार थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।
2. कां० रन्धीर सिंह
3. कां० शिवम





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्रतिदिन की भांति पुलिस कार्यालय, महोबा में जनतादर्शन में जनसुनवाई कर जनसामान्य की समस्याओं को सुना गया तथा सम्बन्धित को दिये आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 28.06.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर० के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षु हर्षिता गंगवार मौजूद रहे।



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में शांति एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा।



आज दिनांक **28.06.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह द्वारा शहर क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस बल के साथ पैदल गस्त कर अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील। जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रों में संवेदनशील स्थानों पर पैदल गस्त करते हुए स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी तथा जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे

स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **61** ई-चालान किये गये।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 28.06.2022

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



महोबा पुलिस



@mahobapolice



SP Mahoba @mahobapolice



7839857330